

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.03.2023

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना को0तरबगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने के आरोपी अभियुक्तगण- 01. पिरथी यादव व 02. सोनी उर्फ सिकन्दर यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल (UP32FK4246 होण्डा साइन ग्रे कलर) व 1 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पिरथी यादव पुत्र सालिकराम यादव निवासी ग्राम दशरथपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या।
02. सोनी उर्फ सिकन्दर यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी बैसिंह थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 124/2023 धारा 411, 419,420,467,468,471 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 125/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।
02. 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 मनोज पाठक मय टीम थाना तरबगंज गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 03, थाना मनकापुर पुलिस ने 02, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौडिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नरेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम कश्मिरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 103/23, 02. रोशनलाल पुत्र दर्शन निवासी अहिरनपुरवा मौजा उड़िला थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 104/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अन्नू पुत्र बुधराम निवासी ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 149/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

'ऑपरेशन क्लीन थाना अभियान' के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना खोडारे ने धारा 207 एमबी एक्ट के अन्तर्गत दाखिल 11 अदद मोटरसाईकिलो का कराया निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने ऑपरेशन क्लीन थाना अभियान के अन्तर्गत वाहनों के निस्तारण हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देशन के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खोडारे द्वारा मा० न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी मनकापुर द्वारा नायब तहसीलदार श्री अमित कुमार को नीलामी हेतु अधिकारी नामित किया था।

दिनांक 28.03.2023 को थाना खोडारे में धारा 207 एमबी एक्ट के अन्तर्गत दाखिल 11 अदद मोटरसाईकिलों का नीलामी कर निस्तारण कराया गया। नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।